

## स्कोम्ब्रोइडस के विशेष प्रसंग में कालिकट की अपवाही जाल मात्स्यकी

### प्रस्तावना

कालिकट के बल्लायिल में अपवाही मात्स्यकी के त्वरित विकास के साथ अनेक परिवर्तन भी हो रहे हैं। बाहरी यंत्रों के आगमन और तारली, बाँगड़े आदि परंपरागत मछलियों की घटती, धीवरों को इस मात्स्यकी की ओर आकृष्ट कर देते हैं। 1986-87 के उच्च मत्स्यन के महीनों में प्रतिदिन का औसत प्रचालन कभी भी 30 बार से अधिक नहीं पहुँचा था। लेकिन 1986-88 के उच्च मत्स्यन के महीनों में अपवाही जाल का औसत प्रचालन प्रतिदिन 50 से अधिक था। अपवाही जाल की पकड़ में मुख्य घटक होने के कारण स्कोम्ब्रोइडस मात्स्यकी पर ध्यान देना आवश्यक है।

### पकड़ सामग्री

अपवाही जाल, विविध मोटाई के नाइलोन सूत्र से बनाये जाते हैं। इनके जालाक्षियों का आकार 10 से 15 से.मी. के अन्तर में है। साधारणतया इसकी लंबाई 600 मी. होती है और गहराई 10 मी.

### आनाय

1984-85 में बाहरी यंत्रों को अधिक प्रचार मिला और अपवाही जालों के स्थानीय आनायों में इसका प्रयोग करने लगा। इन यंत्रों ने कम कीमत की फलक से निर्मित यानों का प्रयोग सुगम बना दिया। जब एक अच्छा नौका का दाम लगभग 60,000 रुपया है तब फलक से निर्मित यान जिसका स्थानीय

### रिपोर्टर

टी.एम. योहन्नान और के.के. बालसुब्रह्मण्यन  
सी एम एर आई कालिकट अनुसंधान केन्द्र, केरल

नाम है “केट्टुवल्लम” सिर्फ 15,000 रुपये में मिलता है। इसके अलावा नौकाओं में बाहरी यन्त्रों का प्रयोग अपवाही जाल एकक में मानव शक्ति को घटा कर दिया है।

### परिचालन

साधारणतया मत्स्यन यान 15.00 घण्टे को स्थलन केन्द्र से जाता है और 18.00 घण्टे को 35 मी. गहराई में पहुँचता है। सुरमई और ट्यूना मछलियों पर अधिक ध्यान देते हुए जाल 45 मिनटों में बिखेरकर रस्सी यान से बाँधता है। साधारतः 25 मीटर से अधिक लंबाई तक रस्सी नहीं छोड़ देती पर प्रक्षुब्ध मौसम में रस्सी अधिक लंबाई में छोड़ देती है। इसके बाद जाल 6 घण्टे तक बहने देता है। 06.00 घण्टे को अवतरण शुरू होता है। दिशा की जानकारी केलिए आजकल मछुए दिक्षमूचक (compass) का उपयोग करते हैं।

### पकड़ और पकड़ श्रम

1981-88 के दौरान वेल्लायिल में अपवाही जाल के 5,224 एकड़ों के ज़रिए 624 टन मछली पकड़ी गयी। इसके



कालिकट में पाई गई सुरमई मछली

(54.65%) स्कोम्ब्रोइड जाति के ट्यूना, (30.03%) सुरमई, (23.39%) और बाँगड़े (1.23%) आदि थी। इसके अलावा शिंगटियाँ पॉम्फ्रेटस, सुरा, रे, कंराजिडस आदि भी पकड़ी गयी थी। 1983-84 में, अपवाही जाल पकड़ में कमी नजर आई तो 1986-87 में 1,333 टन की भारी बढ़ती हुई। 1984-85 में पकड़ श्रम काफी कम था। 1986-87 में शत प्रतिशत एकक यंत्रीकृत किया गया। 1985-86 की मुख्य पकड़ सुरमई भी और 1986-88 के दौरान अपवाही जाल की पकड़ में ट्यूना पहला आ गया। कुल पकड़ और पकड़ श्रम के साथ सीधा संबन्ध है।

अपवाही जाल मात्रियकी में प्रयास बढ़ाने से काफी अच्छा फल मिलने की संभावना है।

#### पकड़ और पकड़ श्रम में मौसमी अन्तर

अपवाही जाल मात्रियकी की उच्चतम पकड़ समय अक्तूबर है। ट्यूना एवं सुरमई का ज्यादा से ज्यादा पकड़ इस अवधि में मिलती है। दूसरी उच्चतम पकड़ अप्रैल में प्राप्त होती है। जुलाई में मौसम काफी अच्छा होता है और इसलीए पकड़ श्रम बढ़ाता है। अप्रैल से जुलाई तक और अक्तूबर से मार्च ट्यूना की बहुलता है।

#### मुख्य शब्द/Keywords

- स्कोम्ब्रोइड्स - scombrids
- अपवाही जाल - drift net
- सुरमई - seerfish
- ट्यूना - tuna
- बाँगड़ा - mackerel



#### कालिकट में ट्यूना मत्स्यन के लिए प्रचालन करनेवाले आऊटबोर्ड गिलनेट्टर्स

